

13263	Joint Plant Committee Collects data of Iron and steel sector	संयुक्त संयंत्र समिति लोह एवं इस्पात क्षेत्र के आंकड़े एकत्र करती है।
13264	CSR program has a Unique Inbuilt Sunset Clause providing review and policy after three years.	सीएसआर कार्यक्रम में एक यूनीक इनबिल्ट सन्सेट क्लॉज़ भी है जिसमें हर तीन वर्ष के बाद पॉलिसी की समीक्षा की जाती है।
13265	Each company is reported to have constituted a dedicated CSR-cell .	प्रत्येक कंपनी ने एक समर्पित सीएसआर सेल गठित किया है ।
13266	The Department Public Enterprises assists Central Public Sector Enterprises.	सार्वजनिक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों की सहायता के लिए है।
13267	There are many Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Steel.	इस्पात मंत्रालय के अधीन कई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं ।
13268	Steel Authority of India limited	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
13269	Financial assistance for steel industry	इस्पात उद्योग के लिए वित्तीय सहायता
13270	Joint Plant Committee Collects data of Iron and steel sector	संयुक्त संयंत्र समिति लोह एवं इस्पात क्षेत्र के आंकड़े एकत्र करती है।
13271	Supply of Steel to Railways has been made	रेलवे को इस्पात की आपूर्ति की जा चुकी है।
13272	Government steel development fund is used to encourage research and development activities in the private sector	सरकार की इस्पात विकास निधि का प्रयोग निजी इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
13273	Production of iron ore has been Increased	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ गया है
13274	Corporate social responsibility by CPSEs under Ministry of Steel	इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
13275	India is currently the world 2nd largest producer of crude steel	वर्तमान में भारत विश्व भर में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है

13276	Make in India initiative in steel sector	इस्पात क्षेत्र में की जाने वाली 'मेक इन इंडिया' पहल
13277	This is a partial list.	यह आंशिक सूची है।
13278	No information has been received for the dissolution of the unit.	इकाई को भंग करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
13279	A certificate should also be furnished with the report	रिपोर्ट के साथ प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
13280	Any serious irregularities such as defalcations, culpable negligence etc. will be brought to the notice of the P.A.G	किसी भी तरह की गंभीर अनियमितताएं जैसे चूक, दोषपूर्ण लापरवाही आदि को पीएजी के संज्ञान में लाया जाएगा।
13281	The report should clearly specify the state of work in the section.	अनुभाग में कार्य की स्थिति रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए।
13282	The section responsible for keeping the manual up to date should maintain a Register of Correction slips	मैनुअल अद्यतन रखने के लिए जिम्मेदार अनुभाग को सुधार पर्ची का रजिस्टर बनाना चाहिए।
13283	The authorized sections will keep two copies of the office orders in separate stock files	अधिकृत अनुभाग कार्यालय के आदेशों की दो प्रतियां अलग-अलग स्टॉक फाइलों में रखेंगे।
13284	The practice of sending quarterly report to CAG has been dispensed with	सी.ए.जी को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।
13285	I have been directed to inform you.	मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ।
13286	Fully agree with the office note.	कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूर्णतया सहमत हूँ
13287	For such action as may be necessary .	यथा आवश्यक कार्रवाई के लिए
13288	Early action in the matter is requested	अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें
13289	Copy of the letter referred to above is sent herewith	उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ भेजी जा रही है
13290	Case is resubmitted as directed on prepage.	पूर्व पृष्ठ पर निदेशानुसार मामला पुन प्रस्तुत है।

13291	Brief history of the case is as follows	मामले का संक्षिप्त इतिवृत इस प्रकार है
13292	As required under the rules	जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित हो
13293	As may be considered expedient.	जैसा कि समीचीन प्रतीत हो ।
13294	As already pointed out	जैसा कि पहले बताया जा चुका है
13295	Approved draft typed and put up for signatures please .	अनुमोदित प्रारूप टाइप करके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत।
13296	The next important step is interrogation,examination of the suspects, accused and the witnesses.	अगला महत्वपूर्ण कदम संदिग्धों, अभियुक्तों और गवाहों से पूछताछ,जांच करना है।
13297	Regulation provides for filing of petition.	विनियम में याचिका दायर करने का प्रावधान है।
13298	This matter is related to the lapse in lending accounts transactions.	यह मामला उधार खातों के लेन देन में की गई चूक से संबंधित है।
13299	The next important step is interrogation, examination of the suspects and the witnesses.	अगला महत्वपूर्ण कदम संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ,जांच करना है।
13300	The sections should endeavour to clear the arrears.	अनुभागों को बकाया राशि चुकाने का प्रयास करना चाहिए।
13301	Drug trafficking not only hampers and affects legitimate trade and commerce but also results in links with other crimes	ड्रग तस्करी न केवल ड्रग के वैध कारोबार व वाणिज्य में बाधा डालती है और उसे प्रभावित करती है, बल्कि इसके तार अन्य अपराधों के साथ भी जुड़े होते हैं।
13302	Illicit trade in drugs generates large profits and wealth.	ड्रग्स के अवैध कारोबार से बहुत अधिक मुनाफा और धन-दौलत हासिल होती है।
13303	Criminals operate for the sole purpose of financial gains and power that goes with it.	अपराधी का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना और उससे मिलने वाली शक्ति को हासिल करना होता है।
13304	Every meeting of the board will be headed by the Chairman.	बोर्ड की हर बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी ।

13305	The drug trade in India and indeed throughout the world is dominated by organised crime.	भारत और पूरी दुनिया में ड्रग का कारोबार संगठित अपराध द्वारा नियंत्रित है।
13306	The statement was read out and explained to the person in the language known to him.	बयान को पढ़ा गया और उस व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाया गया।
13307	Keep restraint on expenditure.	खर्च पर अंकुश लगाएं।
13308	Notice under NDPS Act may be issued and statements about the identity of the person are to be taken.	एनडीपीएस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाए और व्यक्ति की पहचान के बारे में बयान लिए जाएं।
13309	In no case should the lodging of such a report be deferred to the next working day.	किसी भी हाल में ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने का काम अगले दिन तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।
13310	The estimated cost of the land and materials for the construction is given below.	निर्माण के लिए भूमि और सामग्री की अनुमानित लागत निम्नानुसार है।
13311	Defence counsel are responsible for all aspects of the case.	बचाव काउंसेल मामले के हर पहलू के लिए उत्तरदायी होता है।
13312	The signature should be legible.	हस्ताक्षर सुपाठ्य होने चाहिए।
13313	This requires execution of deed of mortgage.	इसके लिए बंधक विलेख का निष्पादन करना होता है।
13314	The decree writer diligently performed his duties.	डिक्री-लेखक ने कर्मठतापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन किया।
13315	The Declaration Form will not be accepted if any of the above documents are not enclosed with.	यदि उक्त में से कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाता है तो आपका घोषणा पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13316	There is no fee payable to file a Decertification Petition.	प्रमाण निरसन याचिका दायर करने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
13317	A damaged or dishevelled Flag shall not be displayed.	क्षतिग्रस्त या मैला-कुचैला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

13318	The abstract of arrears should be prepared.	बकाया राशि का सार तैयार किया जाना चाहिए।
13319	Rules for strict implementation of the Official Language should be framed.	राजभाषा के सख्त कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार किए जाने चाहिए।
13320	Central Council for Research in Homoeopathy collaborates with national and international institutes in the area of research in Homoeopathy.	केंद्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् होमियोपैथी में अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करती है।
13321	Before the commencement of the search the officer should obtain an authorisation for the search.	तलाशी शुरू होने से पहले अधिकारी को तलाशी के लिए एक प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।
13322	Deployment of responsibilities on various participating officers should be done.	भाग लेने वाले विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारियां बांटी (सौपी) जानी -चाहिए।
13323	Various participating officers should be entrusted upon with responsibilities.	भाग लेने वाले विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौपी जानी चाहिए।
13324	The operation should be well planned so that it can be conducted efficiently in least possible time.	कार्रवाई की योजना सुनियोजित ढंग से बनाई जानी चाहिए ताकि इसे कम से कम समय में कुशलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके।
13325	A preliminary verification of the information through different sources and by surveillances have to be done.	विभिन्न स्रोतों के माध्यम से और निगरानी से प्राप्त जानकारी का प्रारंभिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
13326	Whenever any information is received, it should be taken down in writing and necessary orders on the same be taken.	जब भी कोई सूचना मिलती है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और उस पर आवश्यक आदेश लिए जाएं।
13327	Possibility of hiring or borrowing special types of vehicles should not be overlooked.	विशेष प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने या उधार लेने की संभावना की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
13328	The vehicles deployed for search duty should not be readily recognised as official.	तलाशी में लगाई गई गाड़ियां ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आसानी से पहचाना जा सके कि वे सरकारी गाड़ियां हैं।

13329	While discussing the points of agenda for the thirty first meeting of the Kendriya Hindi Samiti the members reaffirmed the minutes of the last meeting	केंद्रीय हिंदी समिति की इकतीसवीं बैठक के एजेंडे के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
13330	Effective financial investigation can break the very back of drug-trafficking syndicates.	प्रभावी वित्तीय जांच से नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त गिरोहों की कमर तोड़ी जा सकती है।
13331	The need for sending the details regarding the foreigners arrested, to the concerned Missions needs hardly to be emphasized.	गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों से संबंधित विवरणों को उनके संबंधित मिशनों को भेजना आवश्यक है।
13332	Government servant must perform his duty in good faith.	सरकारी कर्मचारी को साफ नीयत से अपनी ज्यूटी करनी चाहिए।
13333	Punishment can be meted out by way of prosecution under NDPS Act.	एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन के माध्यम से सजा दी जा सकती है।
13334	Safe guards have been prepared to check the illicit cultivation of Opium.	अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय तैयार किए गए हैं।
13335	Dry heroin can be ground to powder between the finger.	सूखी हेरोइन को उंगलियों से पीसा जा सकता है।
13336	A multipronged strategy has been evolved to check the drug trafficking.	ड्रग तस्करी को रोकने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई है।
13337	India has signed extradition treaties, mutual legal assistance agreements and other specific agreements to combat terrorism and organised crimes etc.	भारत ने आतंकवाद और संगठित अपराधों आदि से निपटने के लिए प्रत्यर्पण संधियों, पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों और अन्य विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
13338	In order to check the export potential of Heroin, this has been brought under strict restrictions of NDPS Act.	हेरोइन की निर्यात संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, इस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

13339	Before issuing the Office Order it will be sent to Co-ordination Section for assigning a general serial number to it.	कार्यालय आदेश जारी करने से पहले इसे एक सामान्य क्रम संख्या देने के लिए समन्वय अनुभाग को भेजा जाएगा।
13340	All such Office Orders should be got approved by the Principal Accountant General	ऐसे सभी कार्यालय आदेश प्रधान महालेखाकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए
13341	The tolerance for this drug builds up faster than any other opiate.	किसी भी अन्य अफीम उत्पाद की तुलना में इस दवा के लिए सहन-शीलता तेजी से बढ़ती है।
13342	The decimal system was invented by Indian mathematicians.	दशमलव पद्धति का आविष्कार भारतीय गणितज्ञों ने किया था।
13343	No policy has been framed for procurement of the decentralized items.	विकेन्द्रीकृत मदों के प्रापण के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है।
13344	The spirit of the Scheme was to provide relief to the family members of the deceased persons.	योजना की मंशा मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करना थी।
13345	Death Gratuity is payable to the nominee or eligible member of the family of the deceased employee.	मृत्यु उपदान मृत कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य या नामिती को देय है।
13346	Non-observance of rules and regulations would attract de-authorization of the bank.	नियमों और विनियमों का पालन नहीं करने पर बैंक का प्राधिकार समाप्त किया जा सकता है।
13347	Normally, no files should be opened for dealing with receipts of routine nature.	सामान्यतः, नेमी स्वरूप की आवतियों के लिए कोई फाइल नहीं खोली जानी चाहिए।
13348	The policy holder can pay the premium amount within days of grace.	पॉलिसी धारक रियायती दिनों के भीतर प्रीमियम राशि का भुगतान कर सकते हैं।
13349	All the entries made in a day book are transferred to ledger book.	रोजनामचा में की गई सभी प्रविष्टियों को बही खाते में अंतरित किया जाता है।
13350	All the documents have been dated and stamped.	सभी दस्तावेजों को दिनांकित और मुद्रांकित किया गया है।

13351	The required information can be obtained from the data room.	अपेक्षित सूचना डाटा कक्ष से प्राप्त की जा सकती है।
13352	All transactions shall be entered in the daily register.	सभी लेनदेन दैनिक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।
13353	The tolerance for this drug builds up faster than any other opiate.	किसी भी अन्य अफीम उत्पाद की तुलना में इस दवा के लिए सहन-शीलता तेजी से बढ़ती है।
13354	Branch Officer should test check the entries against one or two returns and attest those entries.	शाखा अधिकारी को एक या दो विवरणियों में दी प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए और उन प्रविष्टियों को सत्यापित करना चाहिए।
13355	The abstract of arrears should be prepared in a tabular form.	बकाया राशि का सार सारणीबद्ध रूप में तैयार किया जाना चाहिए।
13356	India has signed extradition treaties, mutual legal assistance agreements and other specific agreements to combat terrorism and organised crimes etc.	भारत ने आतंकवाद और संगठित अपराधों आदि से निपटने के लिए प्रत्यर्पण संधियां, पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते और अन्य विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
13357	Nepal is a secular nation.	नेपाल पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है।
13358	Applications are invited from the eligible candidates for the post of Assistant Director.	सहायक निदेशक के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
13359		